

The Gazette



of India

EXTRAORDINARY

PART I—Section 1

PUBLISHED BY AUTHORITY

No. 25] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 8, 1963/MAGHA 19, 1884

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

RESOLUTION

New Delhi, the 8th February, 1963

No. 13(7)/62-Chem. II.—The Tariff Commission has submitted its report on the fair selling prices of sheet glass on the basis of an enquiry undertaken by it under Section 12(d) of the Tariff Commission Act, 1951. Its recommendations are as follows:—

- (i) The fair ex-works selling prices given below which are exclusive of all levies, Central or State, should be notified as ceiling prices for sale of ordinary sheet glass, ex-factory, either directly or through selling agents, or distributors of the manufacturers and these should be in force till the 31st December, 1965 :—

A. WINDOW GLASS (ORDINARY QUALITY) (Rupees per 10 sq. Mts.)

Sizes	2 mm (16/18 oz.)	3mm (24 oz.)	4mm (32 oz.)
<i>Cut Sizes</i>			
To 100 u/cm (40 U/I)	37.25	50.25	78.25
To 150 „ (60 „)	39.00	55.25	86.00
To 200 „ (80 „)	44.75	65.25	101.75
To 250 „ (100 „)	52.25	75.50	117.50
To 300 „ (120 „)	57.75	88.00	133.00
<i>Manufacturing Sizes</i>			
Lengths 152/168 cms.			
Width 60/95 cms.	46.50	67.75	105.75
Lengths 152/168 cms.			
Width 100/cms. and above	56.00	85.50	125.25

B. THICK SHEET GLASS (Ordinary quality) (Rupees per Sq. Mt.)

	4.8 mm (3/16")	5.5 mm (7/32")
<i>Cut Sizes</i>		
To 0.18 Sq. Mt. (2 Sq. Ft.)	9.68	11.18
To 0.27 „ (3 „)	13.05	14.53
To 0.45 „ (5 „)	15.98	17.88
To 0.66 „ (7 „)	16.93	19.00
To 0.93 „ (10 „)	18.38	21.23
To 1.41 „ (15 „)	19.35	22.35
To 2.31 „ (25 „)	21.28	24.58

(ii) The retail prices of window or thick sheet glass should not exceed 20% of the corresponding fair ex-works selling prices.

2. Government have carefully considered recommendation (i) and decided that in view of the higher production and utilisation of capacity envisaged in the industry, the fair ex-works selling prices of ordinary sheet glass be fixed as under for the different thickness groups :—

Thickness of sheet glass	Fair ex-works price
	(Rs. per 10 Sq. m.)
2 mm.	41]
3 mm.	58]
4 mm.	83]
4.8 mm.	107]
5.5 mm.	119

The fair ex-works selling prices will, therefore be, as mentioned above for the different thickness groups of sheet glass. The above prices shall be exclusive of excise duty and State/local levies. As the production pattern of various sheet glass units differs, it is left to the manufacturers to work out the prices of the various cut sizes produced by them in each thickness group within the average ex-works selling price worked out for that group and obtain Government's approval for the same. These prices will remain in force till the 31st March, 1964 when the position would be reviewed.

3. Government accept recommendation (ii) and steps will be taken to implement it as far as possible.

R. PRASAD, Jr. Secy.

बाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 8 फरवरी 1963

सं० 13(7)/62-रसा० 2.—प्रभारावलि आयोग ने प्रभारावलि आयोग अधिनियम, 1951 की धारा 12 (ब) के अन्वीन अपने द्वारा की गई एक जांच के आधार पर चादर-कांच को उचित विक्रय कीमतों के बारे में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है। इसकी सिफारिशें निम्न प्रकार हैं :—

- (1) नीचे दी गई कारखाना-द्वारे उचित विक्रय कीमतों को, जो केन्द्रीय या राज्य के सभी उद्घरणों को छोड़ कर हैं, साधारण चादर-कांच के कारखाना द्वारा विक्रय के लिये जो चाहे सोचे या विक्रय एजेंटों या अभिनिर्माताओं के वितरकों को मार्फत

हो, अधिकतम कीमतों के रूप में अधिसूचित किया जाना चाहिये और ये कीमतें 31 दिसम्बर, 1965 तक प्रवृत्त रहनी चाहियें—

क—बिड़की का कांच ^१/_२ (साधारण किस्म) (६० प्रति 10 वर्ग मीटर)

आकार	2 मि० मी० (16/18 औ०)	3 मि० मी० (24 औ०)	4 मि० मी० (32 औ०)!
कटे आकार			
100 यु० सेमी० तक (40 यु०/इ०)	37.25	50.25	78.25
150 " " (60 ")	39.00	55.25	86.00
200 " " (80 ")	44.75	65.25	101.75
250 " " (100 ")	52.25	75.50	117.50
300 " " (120 ")	57.75	88.00	133.00
अभिनिर्माण आकार			
सम्बाई 152/168 सेमी०			
चौड़ाई 60/95 सेमी०	46.50	67.75	105.75
सम्बाई 152/168 सेमी०			
चौड़ाई 100 सेमी० और इससे अधिक	56.00	85.50	125.25

ख—मोटा चादर-कांच (साधारण किस्म) (६० प्रति वर्ग मीटर)

	4.8 मि० मी० (3/16 इ०)	5.5 मि० मी० (7/32 इ०)
कटे आकार		
0 18 वर्ग मीटर तक (2 वर्ग फीट)	9.68	11.18
0.27 " (3 ")	13.05	14.53
0.45 " (5 ")	15.98	17.88
0.66 " (7 ")	16.93	19.00
0.93 " (10 ")	18.38	21.23
1.41 " (15 ")	19.35	22.35
2.31 " (25 ")	21.28	24.58

(ii) बिड़की के या मोटे चादर-कांच की फुटकर कीमतें उनकी अपनी अपनी कारखाना-द्वारे उचित विक्रय कीमतों से 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहियें।

2. सरकार ने सिकारिश (१) पर सावधानी पूर्वक विचार कर लिया है और यह विनिश्चय किया है कि इस उद्योग में अधिक उत्पादन और क्षमता के अधिकाधिक उपयोजन की जो बात परिकल्पित है, उसको दृष्टि में रख कर साधारण चादर-कांच की कारखाना-द्वारे उचित विक्रय कीमतें विभिन्न मोटाई वाले वर्गों के लिये नीचे लिखे अनुसार नियत की जायें —

चादर-कांच की मोटाई	कारखाना-द्वारे उचित कीमत
(रु० प्रति १० वर्ग मीटर)	
2 मि० मो०	41
3 मि० मो०	58
4 मि० मो०	83
4.8 मि० मो०	107
5.5 मि० मो०	119

अतएव चादर-कांच के विभिन्न मोटाई वाले वर्गों के लिये कारखाना-द्वारे उचित विक्रय कीमतें वही होंगी जो ऊपर वर्णित है। उपर्युक्त कीमतों में उत्पादन-शुल्क और राज/स्थानीय उद्ग्रहण सम्मिलित नहीं हैं। चूंकि चादर-कांच के विभिन्न युनिटों के उत्पादन पैटर्न में अन्तर होता है, अतः यह बात अभिनिर्मात्रियों पर छोड़ दी गई है कि वे प्रत्येक मोटाई वर्ग में अपने द्वारा उत्पादित विभिन्न कटे-आकारों की कीमतें उस कारखाना-द्वारे औसत विक्रय कीमत की परिधि में रहते हुये निकाल लें जो कि उस वर्ग के लिये निकाली गई है, और उनकी बाबत सरकार का अनुमोदन अभि-प्राप्त कर लें। ये कीमतें ३१ मार्च, १९६४ तक प्रवृत्त रहेंगी जब कि स्थिति का पुनर्विलोकन किया जायेगा।

3. सरकार सिकारिश (२) को स्वीकार करती है और इस जहा तक सम्भव होगा कार्यान्वित करने के लिये उपाय किये जायेंगे।

भार० प्रसाद, संयुक्त सचिव।